



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India)  
मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066.  
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066  
[www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in) [www.epfindia.nic.in](http://www.epfindia.nic.in)  
Telephone: 011- 26196239 Fax: 011-26173022

No. WSU/10(1)2011/Changes in MAP

Date: 26 AUG 2016

To

All ACCs (Zones)  
All RPFC-Incharge of  
ROs/SROs.

**Sub: Claim Form No. 31 – Instructions on submission of Declaration Form therewith.**

**Ref:** Head Office circular of even number dated 04.08.2016 (at Sl. No. 264 of office orders/  
circulars for 2016-17)

Sir/Madam,

Please refer to the above said subject.

- It had been clarified vide circular of even number dated 04.08.2016 that the Declaration Form can be accepted in case of UAN based Claim Form No. 31(UAN) without attestation of the employer. The same procedure may also be adopted for Claim Form No. 31 also.
- In view of above, the attestation of an employer on the Declaration form would not be required for both Form No. 31 & Form No. 31(UAN). However, the Claim Form No. 31 shall continue to be attested by the employer.
- This has approval of the Central P.F. Commissioner.

Encl: Declaration Form

Yours faithfully,

*Sanjay*  
(Sanjay Kumar)  
RPFC-I (F&A)



**नया घोषणा प्रपत्र**  
**NEW DECLARATION FORM**

कृपया घोषणा प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज़ संलग्न न करें  
**KINDLY DO NOT ENCLOSE ANY DOCUMENT WITH THE DECLARATION FORM.**

( किसी निवास स्थान/घर/फ्लैट अथवा निवासीय घर के पुनर्निर्माण अथवा विस्तार/बदलाव के लिए आवेदन प्रपत्र न. 31/ प्रपत्र न. 31(यू.ए.एन.) के साथ प्रस्तुत किया जाना है।)

(To be submitted alongwith application Form 31/Form 31(UAN) for purchase of a dwelling site/house/flat or re-construction of dwelling house, or for addition/alteration of the dwelling house)

1	सदस्य का नाम/ Name of the Member	
2	भविष्य निधि खाता संख्या / Provident Fund A/c No.	
3	निवास स्थान/निवास घर अथवा फ्लैट अथवा निर्माणाधीन मकान का पूर्ण पता जिसके लिए निकासी हेतु आवेदन किया गया है। / Complete Address of the dwelling site/ dwelling house or flat or house under construction for which withdrawal is applied for. - प्लॉट/घर का मालिक जिससे इसे खरीदा गया है, का नाम एवं पता/किया गया अनुबंध / Name & address of the owner of plot/house from whom purchased/ agreement executed. - सर्वे संख्या/प्लॉट सं./खाता संख्या/पंजीकरण संख्या तथा टाइटल डीड का वर्ष / Survey no./plot no./khatta no./Registration number and the year of the title deed - बाउंड्री ( पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण )/ Boundary (East/West/North/South) - स्थान एवं मकान का क्षेत्रफल / Area of Site and/house	
4	साइट प्लान की संदर्भ संख्या तथा दिनांक सहित मंजूरी देने वाला प्राधिकारी / Authority which approved site plan with reference no. and date.	
5	संपत्ति /मकान / फ्लैट का अनुमानित मूल्य अथवा निर्माण/विस्तार /बदलाव की अनुमानित लागत / Estimate of value of property/house/flat or estimated cost of construction/addition/ alteration.	
6	क्या मकान हेतु पहले भी निकासी की गई थी? यदि हां, तो राशि, स्वीकृति की तिथि, उद्देश्य आदि / Whether withdrawal for housing was availed previously, if so the amount, date of sanction. Purpose etc.	
7	निर्माण के क्षेत्र में स्थानीय निकाय के नाम सहित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्माण हेतु अनुमति/ लाइसेंस संख्या / Permission/license no. for construction issued by local authority with name of local body in the area of construction.	

- (I) उपर्युक्त - कथित - साइट/मकान/फ्लैट अथवा निर्माणाधीन मकान - सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त है। मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि साइट/मकान/फ्लैट मेरे नाम अथवा मेरे पति /पत्नी के नाम .....अथवा मेरे पति /पत्नी.....(नाम दें) के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत है। / The above-said site/house/flat or house under construction - is free from all encumbrances. I undertake that house/site/flat is registered in my name or my spouse's name..... or is jointly in the name with my spouse .....(give name).
- (II) यदि उपर्युक्त बताए गए उद्देश्य के अतिरिक्त राशि का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए होता है, तो मैं संपूर्ण राशि को दंडित ब्याज सहित लौटाने के लिए उत्तरदायी हूँ। / In case the amount is used for any purpose other than that stated above, I am liable to refund the entire amount with penal interest.

सदस्य के हस्ताक्षर  
Signature of Member